

LT FOODS LIMITED CORPORATE OFFICE

MVL - I Park, 4th Floor Sector -15, Gurugram-122001, Haryana, India. T. +91-124-3055100 F. +91-124-3055199 CIN No. : L74899DL1990PLC041790

Registered Office

Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Center, Saket, New Delhi -110017, India. T. +91-11-29565344 F. +91-1129563099

Date: August 07, 2023

Ref-LTF/ SE/ 2023-24/

To,

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, C-1, Block G,
Dalal Street	Bandra Kurla Complex,
Mumbai- 400001	Bandra (E)
	Mumbai – 400 051

Ref. Code: 532783. Scrip ID: DAAWAT

Subject: Copies of Newspaper Publication - Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

In continuation of our earlier letter dated August 04, 2023, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in accordance with Section 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 in Financial Express and Jansatta pertaining to seeking shareholders' approval through Postal Ballot process. The above advertisements were published in the above newspapers on August 05, 2023.

This is for your information and record.

Thanking you. Yours truly,

For LT Foods Limited

Monika Chawla Jaggia Company Secretary Membership No. F5150 Encl:a/a













Particulars.

made to the BSE Limited.

Place: Udaipur

Date: 04 August 2023

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

TPNODL

TP NORTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED

(A Tata Power & Odisha Government Joint Venture) Regd. Off: Corp Office, Januganj, Remuna Golei, Balasore, Odisha-756019 CIN No.: U40106OR2021SGC035951; Website: www.tpnodl.com

NOTICE INVITING TENDER (NIT) August 05, 2023

TP Northern Odisha Distribution Limited invites tender from eligible Bidders for the following: SI. Tender Enquiry No. Work Description

TPNODL/OT/2023-24/2500000438 Rate Contract for Supply of 9m PSC Poles at TPNODL TPNODL/OT/2023-24/2500000425 Rate Contract for Newspaper Publications TPNODL/OT/2023-24/2500000436 Rate Contract for Supply of Aluminium cable socket. TPNODL/OT/2023-24/2500000442 Rate Contract for Supply of different Type of H/w Fittings TPNODL/OT/2023-24/2500000439 Purchase Order for MS Office perpetual & On Premise

AD User CAL

TPNODL/OT/2023-24/2500000441 Rate Contract for GIS Sustenance 7 TPNODL/OT/2023-24/2500000443 Rate Contract for Fault Passage Indicator (11KV & 33KV

* MSMEs registered in the State of Odisha shall pay tender fee of Rs. 1000/- including GST. ** EMD is exempted for MSMEs registered in the State of Odisha.

For more details like bid due date, EMD, tender fee, bid opening date etc. of the Tenders, please visit "Tender" section TPNODL website https://tpnodl.com. All tenders will be available on TPNODL website

Future communication / corrigendum to tender documents, if any, shall be available on website. Chief- Contracts & MM

GR Gundugolanu Devarapalli Highway Private Limited GGDHPL

Registered Office: GR House, Hiran Magri, Sector 11, Udaipur, Rajasthan 313002 Email: spv@grinfra.com, Phone: +91 294-2487370 (CIN: U45206RJ2018PTC060749)

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

21	Particulars	(In takins except per share data)			
No.	STACE DATES VALE CLA	Quarter ended		Year ended on	
2000		30-Jun-23	30-Jun-22	31-Mar-23	
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	3,609.45	12,252.28	30,197.22	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	791.30	8,133.67	18,284.04	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	791.30	8,133.67	18,284.04	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	592.14	6,086.59	13,682.29	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	592.14	6,086,59	13,682.29	
6	Paid up Equity Share Capital	4,950.00	4,950.00	4,950.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	13,859.67	5,671.83	13,267.53	
8	Securities Premium Account	-		-	
9	Net Worth	35,058.59	30,768.32	33,818.41	
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	72,094.50	76,546.40	72,017.77	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares				
12	Debt Equity Ratio	2.06	2.49	2.13	
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (* not annualised) (forcontinuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	1.20 ° 1.20 °	12.30 * 12.30 *	27.64 27.64	
14	Capital Redemption Reserve				
15		2,513.54	2,670.00	2.513.54	
16		1.40	6.06	2.18	
17	Interest Service Coverage Ratio	1.40	6.06	3.53	

The above financial results for the Quarter ended June 30, 2023 have been approved by the board of directors at their meeting held on August 04, 2023.

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results will be uploaded on website www.ggdhpl.com and will also be available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com.

For the other line items referred in regulation 52(4) of the LODR Regulation, pertinent disclosures have been

For and on behalf of Board of Directors

of GR Gundugolanu Devarapalli Highway Private Limited Kuldeep Jain

(₱ in lakhs excent per share data).

Director DIN: 09307480

LT Foods

CIN L74899DL1990PLC041790

Regd. off.: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Tel.: 011- 29565344 Corp off: 4th Floor, MVL- I Park, Sector-15, Gurugram-122001 Tel: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in Website: www.ltgroup.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING

Notice is hereby given that the Board of Directors of Lt Foods Limited (the 'Company'), on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee, has appointed Mr. Satish Chander Gupta (DIN: 00025780) as an Additional Director in the capacity of an Independent Director of the Company, subject to the approval of the Members of the Company, which is being sought to be taken through Postal Ballot. Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th September, 2022 and 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Postal Ballot Notice seeking consent of the members of the Company by voting though electronic mode (remote e-voting) has been sent electronically on Friday, 04th August, 2023 to the Members/Beneficiaries whose E-mail ID's is registered with the Company or its Registrar & Share Transfer Agent (M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd) (in respect of shares held in physical form) or with the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form) and whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 28th July, 2023 ("Cut-off Date") for obtaining the approval of the Members in respect of the businesses mentioned in the Postal Ballot Notice dated Wednesday, 2nd

Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 28th July, 2023 will be considered for the purpose of e-voting and voting rights shall be reckoned on the paid-up value of Equity shares registered in the name of the shareholders as on that date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information purpose only.

The requirement of sending physical copy of the Postal Ballot Notice has been dispensed away with vide above referred MCA Circulars. The Postal Ballot Notice dated Wednesday, 2nd August, 2023 will also be available on the website of the Company at www.ltgroup.in, Stock Exchanges viz. BSE Limited ("BSE")and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites. Members may also send a request to the Company for receiving Postal Ballot Notice at

In compliance with the applicable provisions of the MCA Circular, the Company is providing the facility to its Members to cast their votes on all the resolutions as set out in the Postal Ballot Notice only by electronic means (e-voting). The communication of assent and dissent of the Members would take place through remote e-voting process only.

The Company has engaged the services of NSDL, as the authorized agency for providing e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically ("Remote e-voting"). Members are requested to note that e-voting has commenced on Friday, 04th August, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and will end on Saturday, 02nd September, 2023 at 5.00 P.M. (IST). The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting i.e. Saturday, 02nd September, 2023. The e-voting module shall be disabled thereafter and will not be allowed beyond 5:00 PM (IST) on Saturday, 02nd September, 2023.

Members who have not yet registered their email addresses or bank account details, are requested to register the same in respect of equity shares held in Electronic form with concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the company at: ir@ltgroup.in

The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, are provided in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Debasis Dixit, Proprietor, M/s. D Dixit & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in a

fair and transparent manner. The Results of the Postal Ballot alongwith the Report of the Scrutinizer, will be declared by the Chairman / Company Secretary of the Company on or before Tuesday, 05th September, 2023 and will be placed on the website of the Company at www.ltgroup.in and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com and on the

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com. For any grievances connected with the facility for remote e-voting please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013 or email at

websites of Stock Exchanges viz. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Place: Gurugram

Date: 04.08.2023

evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

For LT Foods Limited Monika Chawla Jaggia

By Order of the Board

Company Secretary & Compliance Officer M. No. F5150

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

ASSAM POWER GENERATION CORPORATION LTD.

Karbi Langpi Hydro Electric Project E-Tender Notice No. APGCL/CGM (H&C)/2023-24/KLHEP Disaster

Management/16(32)

The Chief General Manager (H&C), APGCL, Bijulee Bhawan Paltanbazar, Guwahati invites electronic tenders through the website https://assamtenders.gov.in for the work "Preventive measures for slope protection at left bank above the dam deck of Hatidubi Dam, KLHEP".

Bid start date : 05-08-2023

Bid end date : 11.00 a.m. on 22-08-2023 Bid opening date : 03.00 p.m. on 22-08-2023

Further details will be made available in the website www.apgcl.org and https://assamtenders.gov.in

Sd/-, Chief General Manager (H&C) i/c, APGCL



Rajkiya Engineering College Agra Road, Mainpuri-205119

Mob. +917081066665 e-mail: director.gecm@gmail.com Website: recmainpuri.in

Advertisement No.:- 08/Advt./RECVI/2023 Dated-04/08/2025

Appointment

Applications are invited for the Non-Teaching posts (Workshop Superintendent-01, Registrar-01 Programmer Grade-I -01, Medical Officer-01, Assistant Registrar-01, Deputy Librarian-01). For qualifications and other details visit institute website:www.recmainpuri.in. The last date of submitting application is 25/08/2023.

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution of release directly or indirectly outside India. This does not constitute an offer of an invitation of a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or to sell securities and is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 07, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE").



SHREE RAM PROTEINS LIMITED

Corporate Identification Number: L01405GJ2008PLC054913

Our Company was incorporated as Shree Ram Proteins Private Limited under the provisions of Companies Act, 1956 vide certificate of Incorporation dated August 29, 2008, issued by the ROC Gujarat Dadra and Nagar Havelli bearing Corporate Identification Number U01405GJ2008PTC054913. Consequently, it was converted into a Public Limited Company pursuant to shareholders resolution passed at Extra-Ordinary General Meeting of our Company held on September 28, 2017, and the name of our company was changed to Shree Ram Proteins Limited and Fresh Certificate of Incorporation consequently upon Conversion of Private company to Public Limited dated November 29, 2017, issued by Registrar of Companies Ahmedabad.

> **Registered Office:** Imperial Heights, Tower-B, Second Floor, Office No. B-206, 150 Ft Ring Road, Opp. Big Bazar, Rajkot, Gujarat-360005. Website: www.shreeramproteins.com; | E-Mail: info@shreeramproteins.com; | Telephone No: +91 28252 80634

> > Company Secretary and Compliance Officer: Bhupendra Kanjibhai Bhadani

OUR PROMOTERS: MR. LALITKUMAR CHANDULAL VASOYA AND MR. LAVJIBHAI VALJIBHAI SAVALIYA

RIGHTISSUE OF 21.42.00.000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00 FACH ("EQUITY SHARES" OF "RIGHTS EQUITY SHARES) OF OUR COMPANY FOR CASHATA PRICE OF ₹ 2.30 PER RIGH SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 1.30 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 4926.6 LAKHS ("THE ISSUE ") ON A RIGHTS BASIS TO THE PUBLIC ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE PUBLIC ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS JULY 06, 2023 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 105.

105 OF THE LETTER OF OFFER. Amount payable per Right Equity Share Face Value Premium Total ₹ 1.00/-₹ 2.30/-On Application

THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 2.3 TIMES THE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE

₹ 1.30/-

NOTICE TO THE ELIGIBLE PUBLIC EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE FURTHER EXTENDED# **ISSUE OPENS ON:**

LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*:

ISSUE CLOSE ON MONDAY, AUGUST 14, 2023# **WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023**#

extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall

Please Note That The Rights Equity Shares Applied For In The Issue Can Be Allotted Only In Dematerialized

Form And To The Same Depository Account In Which Our Equity Shares Are Held By Such Investor On The

Record Date. For Details, See "Terms Of The Issue- Allotment Advice Or Refund/ Unblocking Of ASBA

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK

The existing Equity Shares are listed on the National Stock Exchange of India Limited ("NSE" or "Stock

Exchange"). Our Company has received 'in-principle' approval from NSE for listing the Rights Equity Shares

to be allotted pursuant to this Issue vide its letter dated June 27, 2023 NSE/LIST/36186. Our Company will

also make an application to the Stock Exchange(s) to obtain the trading approval for the Rights Entitlements

as required under the SEBI circular (SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13) dated January 22, 2020. For the

This Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is not

exceeding Rs. 5.000.00 Lakhs, however the final letter of offer will be filed with SEBI for dissemination

"It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or

construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or

completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of

In accordance with the SEBI ICDR Regulations and SEBI Rights Issue Circulars, the Letter of Offer, the

Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be

sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address to our

Company and who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Entitlement or Rights

Equity Shares is permitted under laws of such jurisdiction and does not result in and may not be construed

as, a public offering in such jurisdictions. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid

e-mail address, the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement

Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity

Shareholders have not provided their e-mail address, then the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the

Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be physically dispatched, on a

Further, the Letter of Offer will be provided by the Registrar on behalf of our Company to the Eligible Equity

Shareholders who have provided their Indian addresses to our Company and who make a request in this

regard. In case the Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Letter of Offer

will be sent only to their valid e-mail address and in case the Eligible Equity Shareholders have not provided

their e-mail address, then the Letter of Offer will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian

Investors can also access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided

that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website

of the Registrar at www.skylinerta.com by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of

In accordance with SEBI Rights Issue Circulars, frequently asked questions and online/ electronic

dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced

by the Investors will be available on the website of the Registrar to the Issue (www.skylinerta.com).

Further, helpline number provided by the Registrar for guidance on the Application process and

Updating Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the

3. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident

Investors are advised to contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance

Officer for any pre- Issue or post-Issue related problems such as non-receipt of Abridged Letter of Offer/

Application Form and Rights Entitlement Letter/ Letter of Allotment, Split Application Forms, Share

Certificate(s) or Refund Orders, etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the

Registrar to the Issue, with a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant,

ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs, number of Equity Shares applied for,

amount blocked, where the Application Form and Rights Entitlement Letter or the plain paper application, in

case of Eligible Equity Shareholder, was submitted by the ASBA Investors through ASBA process., see

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS. KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER/ABRIDGED

ALLOTMENT OF THE RIGHT EQUITY SHARES IN DEMATERALISED FORM:

Eligible Public Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renour on or prior to the Issue Closing Date. #In order to provide an opportunity to the eligible equity shareholders of the company to exercise their rights and to subscribe to the rights equity shares in the right issue in terms of Letter of offer/Abridge letter of

offer dated July 07, 2023, the window has been extend as mentioned above. Therefore, all reference of the issue closing date made in Letter of offer ("LOF")/Abridge letter of offer ("ALOF"), Application form and issue advertisement published on July 13, 2023 shall be Monday, August 14, 2023. All other terms and conditions mentioned in the LOF/ALOF, Application form, and issue advertisement continue to be applicable. This advertisement is an addendum to the Letter of offer ("LOF")/Abridge letter of offer ("ALOF"), Application form and issue advertisement published on July 13, 2023.

Accounts" On Page 122

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE

addresses provided by them.

securities laws) on the websites of:

a) Our Company at www.shreeramproteins.com

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE:

Eligible Equity Shareholders

"Terms of the Issue" beginning on page 105.

MONITORING AGENCY:- Not Applicable

LETTER OF OFFER.

SEBI at www.sebi.gov in, the Stock Exchange i.e. NSE at www.nseindia.com and on the website of Registrar to the Issue i.e www.skylinerta.com. Investors should note that Investment in equity shares involves a degree or risk and for details relating to

resolution of difficulties is 011 – 40450193-97

Registrar or our Company www.linkintime.com

b) the Registrar to the Issue at www.skylinerta.com

LISTING

purpose

EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED MODE:

purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange is NSE

offer for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE".

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS:-

reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

ASBA*

MONDAY, JULY 17, 2023

Simple, Safe, Smart way of making an Application- Make Use of it. *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further information, please see the section entitled "Terms of the Issue" on Page 105 of the LOF.

PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in the Issue are mandatorily required to use the Equity Shares hereby offered, as set out in "Terms of the Issue-Basis of Allotment" on page 122.

the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For Details, see "PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS on Page 107 of LOF.

PROCEDURE FOR APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA

enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an FRACTIONAL ENTITLEMENTS Application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Not Applicable Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the

Our Company, their directors, employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not take any responsibility for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in the Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, amon others, who hold Equity Shares in physical form, as applicable, and whose demat account details are no available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

In accordance with the SEBI circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 date January 22, 2020, Resident Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form, as applicable, as on the Record Date will not be allowed to renounce their Rights Entitlements in the Issue However, such Eligible Equity Shareholders, where the dematerialized Rights Entitlements are transferred from the suspense escrow demat account to the respective demat accounts within prescribed timelines. can apply for Additional Rights Equity Shares while submitting the Application through ASBA process.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make a Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source, may make an Application that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges, along with the requisite Application Money, to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available online. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorizing such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be c) the Stock Exchange at www.nseindia.com entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form). The link for the same shall also be same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated available on the website of our Company (i.e., www.shreeramproteins.com) Branch of the SCSB before the Issue Closing Date In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements | The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application

being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.skylinerta.com. Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date. Payment Schedule of Rights Equity Shares

₹ 2.30 per Rights Equity Share (including premium of ₹ 1.30 per Rights Equity Share) shall be payable or Application.

Our Company accept no responsibility to bear or pay any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investors. LAST DATE FOR APPLICATION The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Monday,

August 14, 2023, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK:- Axis Bank Limited the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the

Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be

Date: - August 04, 2023

the same, please see the section entitled 'Risk Factors on page 19 of the LOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED Address: D-153A. First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Contact person: Mr. Anuj Rana

Tel: 011-40450193-97 | E-mail ID: ipo@skylinerta.com | Website: www.skylinerta.com **SEBI registration number:** INR000003241 | **Investor grievance e-mail:** grievances@skylinerta.com CIN: U74899DL1995PTC071324

Place:- Raikot

For SHREE RAM PROTEINS LIMITED SD/-Lalitkumar Chandulal Vasoya

Chairman & Managing Director DIN: 02296254

Our Company is proposing subject to market conditions and other considerations, a right Issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated July 07, 2023 with SEBI and Stock Exchange. The LOF is available on the website of

garima advt.

The announcement does not constitute an offer of Right Entitlements of Right Entitlements of Right Entitlements and Right Entit Entit Entitlements and Right Entitlements and Right Ent offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an exemption from registration. There will be no public offering of Right Equity Shares in the United States.

New Delhi

FINANCIAL EXPRESS

DIRECTOR

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा

करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआर.पी.सी. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त गणेश उर्फ गणेशिया उर्फ मोहन,

पुत्र सत नारायण, निवासी बी-2/272, 25 गज, रघुबीर नगर, दिल्ली ने मुकदमा

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 160/2023 धारा 420/406/34 भा.द.सं. के तहत

थाना विजय विहार, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि

उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर

लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त गणेश उर्फ गणेशिया उर्फ मोहन मिल

नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त

गणेश उर्फ गणेशिया उर्फ मोहन फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि प्रथम सचना रिपोर्ट सं

160 / 2023 घारा 420 / 406 / 34 भा.द.सं. के तहत थाना विजय विहार, दिल्ली

के उक्त अभियुक्त गणेश उर्फ गणेशिया उर्फ मोहन से अपेक्षा की जाती है कि

वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए

से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)।

दिनांक 13.09.2023 को या इससे पूर्व हाजिर हो।

विनियम, 2017 का विनियम 14}

पयुचरकॉउ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों के ध्यानार्थ पयुचरकॉउ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम कॉर्पोरेट व्यक्ति के गठन की तिथि 05.08.2021

प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एण्ड हरियाणा गठित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U29304HR2021FTC096838

कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय का पता जी-21, डीएलएफ डीएलएफ, फेस-1, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, इंडिया

 कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ तिथि 01.08.2023 परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, नाम : रवीन्द्र कुमार मिन्त्री टेलीफोन नम्बर एवं पंजीकरण संख्या पता : जेडी-18-बी, नियर आशियाना चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल आईडी : futurecow.vlliq@gmail.com फोन नं : + 91-98111-73846

दिवाला पेशेवर पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00707/2017-2018/11194 AA1/11194/02/270223/103926 | Valid up to: 13-02-2024 १ दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2023 लदद्वारा सुचित किया जाता है कि फ्यूचरकॉंउ इंडिया प्राईवेट लिमिटेंड ने 01.08.2023 को स्वैच्छिक

ध्यूचरकॉउ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को एतदद्वारा मद 7 में वर्णित पते पर

रिसमापक के पास 31.08.2023 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए

वित्तीय लेनदारों के केवल इलेक्ट्रॉनिक पहति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य

सभी स्टेकडोल्डर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्टॉनिक पद्गति से अपने दावों के प्रमाण

जमा कर सकते है। दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाणा जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक : 05.08.2023

स्थान : नई दिल्ली

परिसमापक नाम : रवीन्द्र क्मार मिन्त्री दिवाला पेशेवर पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00707/2017-2018/11194

श्री नवदीप गुप्ता मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर-पश्चिम) कमरा नं. 112, प्रथम तल

आदेशानुसार

रोहिणी कोर्ट, दिल्ली DP/8643/RD/2023 केन फिन होम्स लि.

Can Fin Homes Ltd

स्थान : पीतमपुरा, दिल्ली

क्र. 1. कर्जदार(रों) का नाम

परिसमापन प्रारंभ किया है।

आमंत्रित किया जाता है।

डीपी-11, प्रथम तल, लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, केनरा बैंक के ऊपर, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, फोन : 011-41761717 मो: 7625079150, ईमेल: pitampura@canfinhomes.com CIN:L85110KA198PLC008699

माग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्नर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने, केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पिटत नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों / गारंटरों (इसमें आगे "उक्त कर्जदार" कहे गए हैं) से, सूचना में वर्णित राशियां, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। उक्त सूचनाएं डाक अधिकारियों द्वारा अवितरित के रूप में लौटा दी गई हैं / कर्जदारों द्वारा सम्यक् प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करवा रही है (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार)। अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर चस्पा करवा दी गई हैं।

संबंधित पार्टियों दारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभति के रूप में निम्नलिखित आस्तियां कम्पनी के पास बंधक रखी गई हैं।

1 44	संबंधित पाटिया द्वारा ऋण का सम्यक् वापसा के लिए प्रातिभूति के रूप में, निम्नालखित आस्तिया कम्पना के पास बंधक रखा गई है।					
क्र. सं.		मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दावित राशि*	प्रतिभूति आस्ति का वर्णन	एनपीए की तिथि	
1.	 आशा शर्मा (आवेदक) पत्नी नरेन्द्र शर्मा नरेन्द्र शर्मा (सह–आवेदक) पुत्र हजारी लाल शर्मा श्रुति (सह–आवेदक) पुत्री नरेन्द्र शर्मा शुभम शर्मा (गारंटर) पुत्र नरेन्द्र शर्मा 	01-08-2023	र्क. 19,74,032 /— (एलएएन—150201000940) र्क. 19,40,328 /— (एलएएन—150205000078)	मकान नंबर जे—16, खसरा नंबर 671 का भाग, ग्राम घोंडा गूजरान खादर, गली नंबर 1, जे—ब्लॉक, जय प्रकाश नगर, शाहदरा, दिल्ली—110053 सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार — उत्तर : 15 फीट गली, पूरब : संजय तोमर की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : रामेश्वर दयाल की सम्पत्ति	29.07.2023	
2.	 मिरयम (आवेदक) पत्नी मोहम्मद खालिद मोहम्मद खालिद (सह–आवेदक) पुत्र इश्तियाक अहमद राजेश कुमार (गारंटर) पुत्र सुरेश नायडू 	01-08-2023	₹5. 30,35,960 / —	फ्लैट नंबर जी—4, प्लॉट नंबर 720, भू तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार — उत्तर : प्लॉट नंबर 721, पूरब : सर्विस लेन, दक्षिण : प्लॉट नंबर 719, पश्चिम : 60 फीट चौड़ी रोड	29.07.2023	
3.	 फातिमा जेहरा (आवेदक) पत्नी सेफ अली सैफ अली (सह–आवेदक) पुत्र अबुल हसन संजीव कुमार (गारंटर) पुत्र फेरू सिंह 	01-08-2023	र्फ. 27,52,701 ∕	फ्लैट नंबर एन—29 / ए—3, भू तल, डीडीए जनता फ्लैट्स, दिलशाद गार्डन दिल्ली—110095 सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार — उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, पूरब : अन्य फ्लैट दक्षिण : एन—29 / ए—3, पश्चिम : बिजली घर	29.07.2023	
4.	 मोनिका (आवेदक) पत्नी सुरेन्द्र चौधरी सुरेन्द्र चौधरी (सह—आवेदक) पुत्र समर सिंह मोहित कुमार (गारंटर) पुत्र मोहन लाल शर्मा 	01-08-2023	ক. 19,40,030 <i>/</i> —	फ्लैट नंबर बी—1, प्रथम तल दायीं तरफ, प्लॉट नंबर सी—24, खसरा नंबर 1187 मिन शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—।।, साहिबाबाद, गाजियाबाद सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार — उत्तर : 12 फीट चौड़ी गली, पूरब : रोड 40 फीट, दक्षिण : प्लॉट नंबर सी—24 का शेष भाग, पश्चिम : प्लॉट गौड़ एन्क्लेव	29.07.2023	
5.	रूप लाल प्रसाद (आवेदक) पुत्र लाखन साह दीपक सोनी (सह—आवेदक) पुत्र रूप लाल प्रसाद उ. यूसुफ आजाद (गारंटर) पुत्र इमाम बक्श	01-08-2023	र्फा. 26,95,123 ∕ −	फ्लैट नंबर यूजीएफ—2, अपर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर बी—1/28, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन—11, भोपुरा, गाजियाबाद सम्पत्ति की चौहददी निम्नानुसार — उत्तर : प्लॉट नंबर बी—1/29, पूरब : रोड 30 फीट, दक्षिण : प्लॉट नंबर बी—1/27, पश्चिम : प्लॉट नंबर बी—1/9	29.07.2023	
6.	1. सुरेन्द्र चौधरी (आवेदक) पुत्र समर सिंह 2. मोनिका (सह—आवेदक) पत्नी सुरेन्द्र चौधरी	01-08-2023	ক. 18,90,214 / — (एलएएन—150201000424) ক. 5,83,134 / — (एलएएन—150220000042)	फ्लैट नंबर बी—2, प्रथम तल दायीं तरफ, प्लॉट नंबर सी—24, खसरा नंबर 1187 मिन शालीमार गार्डन एक्सटेंशन— । ।, साहिबाबाद, गाजियाबाद सम्पत्ति की चौहददी निम्नानुसार — उत्तर : 12 फीट चौड़ी गली, पूरब : रोड 40 फीट, दक्षिण : प्लॉट नंबर सी—24 का शेष भाग, पश्चिम : प्लॉट गौड़ एन्क्लेव	29.07.2023	

*उपरिवर्णित तिथि से भूगतान की तिथि तक, सहमत संविदात्मक दरों पर, आगे ब्याज के साथ देय। एतदद्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट

के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतू बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान की ओर आकष्ट किया जाता है। तिथि : 04-08-2023

प्राधिकृत अधिकारी केन फिन होम्स लिमिटेड

र्ड—नीलामी की तिथि एवं समय । अरक्षित मुल्य

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

APRIGLOBAL पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 सर्किल कार्यालय :- कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060 CAPITAL LIMITED

परिशिष्ट -IV-क [नियम 8 (6) का परंतुक देखें] अचल सम्पित्तयों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित / भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभुत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभुत लेनदार, की बकाया राशि की वसुली के लिए निम्नवर्णित तिथियों को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मुल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

 2. बकाया राशि 1. मैसर्स डायमंड एजूकेशनल सोसायटी (कर्जदार) 2. श्री धर्मेन्द्र सिरोही 3. श्रीमती रेणु सिरोही 4. श्री जतन स्वरूप शर्मा (सह—कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGCCHATL0000005084 रूपए 60,84,589 / — (रूपए साठ लाख चौरासी हजार पांच सौ नवासी मात्र) 03—08—2023 तक + लागू भावी ब्याज 	का वर्णन सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: सम्पत्ति सं. 501, क्षेत्रफल परिमाप 300 वर्ग गज अर्थात 250.83 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 6, ग्राम मोहम्मदपुर ढेडा, मारूफ मोहल्ला, जलालपुर रोड, मुरादनगर वार्ड नंबर 9, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201206, चौहद्दी निम्नानुसार: पूरब: 30 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति, उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति,	एवं समय 1. ई—नीलामी की तिथि : 08—09—2023 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि :	2. सम्पत्ति की ईएमडी 3. वृद्धि मूल्य सुरक्षित मूल्य : रू. 76,00,000/— (रूपए छहत्तर लाख मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 7,60,000/— (रूपए सात लाख साठ हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 50,000/— (रूपए पचास हजार मात्र)
1. श्री नरेन्द्र कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती सरिता (सह—कर्जदार) ऋण खाता संख्या LNCGCOKDTL0000006658 रूपए 22,20,560 /— (रूपए बाईस लाख बीस हजार पांच सौ साठ मात्र) 03—08—2023 तक + लागू भावी ब्याज	फ्लैट नंबर एफ—3, प्रथम तल, सुपर एरिया परिमाप 1160 वर्ग फीट, खसरा नंबर 861 / 2 / 1 का भाग, स्थित विस्तारित लाल डोरा आबादी ग्राम मंडी, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट—1, तहसील हौज खास, (मेहरौली), नई दिल्ली—110047	08—09—2023 (अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच) 2. ईएमडी, केवाईसी सहित जमा	सुरक्षित मूल्य : रू. 25,50,000/— (रूपए पच्चीस लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि जमा : रू. 2,55,000/— (रूपए दो लाख पचपन हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रू. 20,000/— (रूपए बीस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें :- www.capriglobal.in/auction/

05-09-2023

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :--सम्पत्ति "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अतएव बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपर्ति के बिना की जा रही है।

- सम्पत्ति / आस्ति के विवरण (उदाहरण के लिए ई—नीलामी बिक्री सचना में विनिर्दिष्ट सीमा एवं परिमाप) प्रतिभृत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभृत लेनदार किसी त्रटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप भिन्न हो सकता है।
- प्रतिभुत लेनदार द्वारा जारी की गई ई–नीलामी बिक्री सुचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभुत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवेदन नहीं है और न ऐसा करता समझा जाएगा। इच्छक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वामित्व विलेख की प्रति प्रतिभत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति / आस्ति के स्वामित्व एवं वर्तमान हालत तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / देयताओं की स्वतंत्र जांच / सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
- 4. नीलामी / बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अथवा ऑक्शन
- टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" द्वारा होगा, जो ई—नीलामी प्लेटफार्म के जरिए नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेंगे। बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पसंद के स्थान से ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार⁄सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रेश डाउन, पावर फेल्योर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- 6. संभावित बोलीदाता ई–नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079.68136880 / 68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नंबर 8000023297, ई—मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
- इच्छुक बोलीदाताओं को ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए पोर्टल पर अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पर्याप्त अग्रिम में करवाना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
- ई—नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिदेय ईएमडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से 06-09-2023 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र (फार्मेट https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी हेतू डिमांड ड्राफट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली—110060 को अधिकतम 06—09—2023 के अप. 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद लिफाफे पर "कर्जदार नाम" की सम्पत्ति के लिए ऋण खाता नंबर –
- ... (ऊपर वर्णित अनुसार) में ई—नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतू बोली" शीर्षांकित 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, प्राधिकत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेंगे तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा अपनी बोलियां सरक्षित
- मूल्य से अधिक उद्भुत की गई हैं तथा प्रतिभूत लेनदार द्वारा विनिर्दिष्ट ईएमडी जमा की गई है) के विवरण की पुष्टि मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को करेंगे ताकि वे ई-नीलामी बिक्री सूचना में वर्णित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति केवल उन्हीं योग्य बोलीदाताओं को दें।
- 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धत उच्चतम बोली से आरंभ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार होंगे अर्थात ई-नीलामी समाप्त होने का समय अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली आने पर हर बार स्वतः 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
- 12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई युजर आईडी से दी गई सभी बोलियां केवल उसके द्वारा दी गई बोली मानी जाएंगी। 13. ई—नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उसके द्वारा उद्धृत अंतिम बोली की राशि की पुष्टि तत्काल ई—मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, आंचलिक
- कार्यालय, प्लॉट नंबर 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजी जाएगी, ताकि उसको ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 14. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिक्री के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 15
- दिन के भीतर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी / पे ऑर्डर / एनईएफटी / आरटीजीएस / चैक द्वारा जमा करनी होगी। 15. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित राशियों का भृगतान नियत अवधि के भीतर करने में चुक की स्थिति में, बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईएमडी सहित)
- जब्त कर ली जाएंगी और सम्पत्ति दोबारा बिक्री हेतू रखी जाएगी। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 17. सफल बोलीदाता को बिक्री मल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिक्री राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिक्री मल्य की पुरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस काटने के बाद), ईएमडी समायोजित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर अदा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जब्त कर ली जाएगी।
- 18. म्युनिसिपल/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भूगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सभी सांविधिक बकाया ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
- 19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य / बोली राशि जमा करने तथा सभी करों / प्रभारों के भूगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तूत करने
- पर ही जारी किया जाएगा।
- 20. हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण हेतू लागू कानूनी प्रभार तथा अन्य अनुषंगी प्रभार नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।

- प्रास्थगित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही प्रास्थगित / निरस्त कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री कार्यक्रम बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 से कम दिन पहले की तिथि हेतू

- 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
- 23. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई—नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते पढ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बाध्य होंगे। 24. सम्पत्ति में रखी चल वस्तुएं (यदि कोई) इस बिक्री का हिस्सा नहीं हैं।
 - 25. अतिरिक्त विवरण तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड : श्री सुशील गुप्ता मोबाइल नंबर 7400445137 से सम्पर्क करें और अन्य पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला – 77380 39346 से सम्पर्क करें। 26. यह प्रकाशन उक्त ऋण खाते के कर्जदार / बंधकदाता / गारंटर को प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत, उपरिवर्णित तिथि / स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के
- संबंध में 30 (तीस) दिन का कानूनी नोटिस भी है। विशेष अनुदेश / चेतावनी : बोलीदाताओं को अन्तिम मिनटों अथवा क्षणों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विफलता / कमी (विद्यत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेत उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनरोध है कि वे अपेक्षित
- बैकअप पॉवर आपूर्ति इत्यादि जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं / विकल्प तैयार रखें, ताकि वे किसी आकस्मिक अड़चन से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। स्थान : दिल्ली / एनसीआर तिथि : 05–अगस्त–2023 हस्ता / – (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram,

बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 14.08.2023 को 10.00 बजे रं

Kerala, India - 695001, CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427 सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.09.2022 & MSGL, SPL-16 One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up t 31.12.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 30.06.2023 तक की अवधि के लिए कम्पर्न की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-

BANSWARA DISTRICT - BANSWARA: F6702 F8010 F8049 F8080 F8109 F8111 F8187 12831, F12844, F12846, F12851, F12858, F12863, F12873, F12878, F12909, F12920 12924, F12946, F12951, F12953, F12956, F12966, F12970, F12977, F12981, F12984 F12985, F12997, F13002, F13004, F13021, F13026, F13036, F13040, F13061, F13072 F13086, F4981, F6402, F7622, F7623, F7624, F8723, F8788, F8917, F9416, F9452, F9850, F9934, F9942, F9955, CHITTORGARH DISTRICT - CHITTORGARH: F3576, F3596, F4634, NIMBAHERA - CHITTORGARH: F323, F953, F962, DUNGARPUR DISTRICT - DUNGARPUR F10058, F11208, F11217, F11218, F11230, F11234, F11240, F11245, F11246, F11253, F11254 11399 F11409 F11425 F11427 F11442 F11443 F11452 F11464 F11497 F11512 F11533 F11539, F11551, F11554, F11561, F11590, F11606, F11608, F11618, F11623, F11636, F11637 F11708, F11714, F11720, F11724, F11730, F11737, F11755, F11758, F11995, F6529, F6541

F6900, F7428, F7472, F7477, F7607, F7901, F8042, F8272, F8988. नीलामी अपनी -अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवर उसी दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 25.08.2023 को सुबह 10.00 बजे BANSWARA DISTRICT: Muthoo FinCorp Ltd., First Floor, Saraf Natwarlal Complex, Block No.157, M.G. Road, Banswara, Rajasthan 327001. BHILWARA DISTRICT: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Charbhuia Bhavan U-438/1, Pu Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Shatri Colorry, Dungarpur, Rajasthan - 314001. पर आयोजित की जाएगी निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान - पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं के मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा

न्युज पेपर जनसत्ता के दिनांक 04 अगस्त 2023 के संस्करण में एलीट रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए एक सार्वजनिक घोषणा (फॉर्म ए) प्रकाशित किया गया था। उस घोषणा में कुछ अशुद्धियाँ थीं जिन्हें इस घोषणा के माध्यम से खुधारा जा रहा है। संशोधित (फॉर्म ए) नीचे प्रकाशित किया गया है।

प्रपत्र फार्म - ए सार्वजनिक सूचना

[भारतीय दिवाला तथा शोधन बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

एलीट रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

	संबंधि	त विवरण
1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	एलीट रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	16 जनवरी 2014
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	आरओसी—दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता कॉर्पोरेट व्यक्ति की पहचान संख्या	U70101DL2014PTC263667
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता (यदि कोई हो)	एस-6, दूसरी मंजिल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मयूर विहार, फेस-। नई दिल्ली – 110091 दिल्ली
6.	कॉपोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	29 जुलाई 2023
7.	परिसमापक का नाम, पंजीकरण संख्या पता ई-मेल पता, तथा टेलीफोन नम्बर	चिरंजीब चक्रवर्ती BBI/IPA-001/IP-P-02782/2022-2023/14257 बी—802, सिलिकॉन टावर, सेक्टर—30ए, वाशी, नवी मुंबई, पिन — 400705 eliterealbuildliquidation@gmail.com 9619850228

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एलीट रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने 29 जुलाई 2023 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू कर दिया है।

28 अगस्त 2023

एलीट रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को अपने दावों का प्रमाण 28 अगस्त 2023 को या उससें पहले आइटम नं. 7 के सामने उल्लिखित पते पर परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय ऋणदाताओं को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी .डितघारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोंनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झुठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। विनांक: 05 अगस्त 2023

स्थान : दिल्ली

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

परिसमापक का नाम

और हस्ताक्षरः

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the General Public that, We, Marda Commercial & Holdings Limited (CIN: L65929WB1990PLC048280) having Registered Office at 11, Crooked Lane, First Floor, Room No. 7 P.S.- Hare Street, Kolkata (W.B)-700069 have lost the Original Provisional Allotment Letter No. JGGNSTR91402 dated 15th January, 2010 issued by Jaiprakash Associates Limited in respect of Unit bearing No. 1402, Tower 9 in Star Court Project, situated at Jaypee Greens, Greater Noida (U.P.) on dated 4th August, 2023. Anyone finding the said document is requested to kindly return the

same to me or to the Company. Mr. Lalit Agarwal Address: 81, F.I.E, Patpatganj Industrial Area, Delhi-110092 Phone No. 9810082130

Email: lka@tirupatipipes.com

आईएफएल हाउसिंग फाइनांस लि. पंजी. कार्या.: डी-16, प्रथम तल, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085 | CIN-U65910DL2015PLC285284

शाखा बंद होने की सुचना विशेष रूप से ऋणधारक तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीम का थाना, राजस्थान में स्थित गृह ऋण शाखा 3 माह के भीतर बंद होने जा रही है।

शाखा का पताः वार्ड नं. 20, शिव प्लाजा, प्रथम तल, केथटी मोड़, नीम का थाना, सीकर, राजस्थान-332713 यदि किसी भी कारण से निर्धारित समय में बंद होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो इसकी सूचना अगले प्रकाशन द्वारा दी जाएगी। विस्तत विवरणों के लिये कपया

8595010101 पर सम्पर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी

कृत्ते, आईएफएल हाउसिंग फाइनांस लि.

अरावली सिक्युरिटीज एंड

फाइनांस लिमिटेड CIN: L67120HR1980PLC039125 कार्यालयः प्लॉट नं. 136,भूतल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव, हरियाणा-122003 फोन: 0124-4284578 ईमेल: info@aravalisecurities.com वेबसाईट: www.aravalisecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, 33, 17 तथा अन्य लाग होने ताले तिनियमन यदि कोई हो *वे* अनुपालन में अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 12 अगस्त, 2023 को 3.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालय- प्लॉट नं. 136, 4था तल, राइडर हाउस, सेक्टर-44, गुड़गाँव-122003 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वित्त वर्ष के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए

अरावली सिक्युरिटीज एंड फाइनांस लिमिटेड

हस्ता./-स्थानः गुरुगाँव रुचि श्रीवास्तव तिथि: 04.08.2023 कम्पनी सचिव

(Formerly known as SURNIDHI INVESTMENT LIMITED) CIN: L74900DL1993PLC056491 Regd office: office No. 400, ITL Twin Towers B-9, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi – 110034 Phone: 011-45824477,

USS GLOBAL LIMITED

E-mail:surnidhiinvestmentltd@gmail.com Notice of 7/2023 Board Meeting Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended, Notice is hereby given that the 7/2023 Meeting of

Website: www.ussgloballtd.com

the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 11th August, 2023 at 4:30 P.M at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the first quarter ended June 30th, 2023.

The said information is also available on the

Company's website at www.ussgloballtd.com

and shall also be available on the website of the stock exchange at www.msei.in By order of the Board For USS Global Limited (Formerly Known as Surnidhi Investment Limited)

Mohit Gupta

गुमशुदा की तलाश



—मेल: cic@cbi.gov.in

फैक्स: 011-24368639

DP/8548/ON/2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नामः रहीम, पुत्रः जकाउल्लाह, पताः सी-5/157, जेजे कॉलोनी, भलस्वा डेरी, दिल्ली, उम्रः 28 साल, कदः 5', रंगः सांवला, चेहराः लम्बा, शरीरः मध्यम, पहनावाः सफदे रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट और पैरों में चप्पल पहने है, जो दिनांक 18.07.2023 से अपने घर से लापता है। इस बाबत DD No.

53A, दिनांकः 28.07.2023, थानाः भलस्वा डेरी, दिल्ली में दर्ज है।

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस लापता व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया है। अगर किसी को भी इस लापता व्यक्ति

के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित पर सूचित करें। फोनः 011-24368638, 24368641 वेबसाईटः http://cbi.nic.in

थाना प्रमुख पुलिस स्टेशनः भलस्वा डेरी, दिल्ली फोनः 9205191350, 8750928899

प्रारूप- जी रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया

	विनिमय 2016 के विनिमय 36ए (1) के तहत प्रासंगिक विवस्ण			
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या	यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया PAN: AAATU0641B ; CIN: U92200DL1959NPL003169		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	9 रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001		
3.	वेबसाइट का व्आरएल	http://www.uniindia.com/		
4.	उस स्थान का विवरण जहाँ बहुमत निश्चित है सम्पति स्थित हैं।	संपत्ति दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, बॅगलुरु, नासिक, इंदौर, मुंबई में स्थित है। नोट: अधिकांश प्रमुख संपत्तियां विभिन्न मुकदमों के तहत आकस्मिक/लीजहोल्ड संपत्ति / विवादित संपत्ति हैं। उपलब्ध विवरण समाधान पेशेवर (आरपी) द्वारा मांगा जा सकता है।		
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कार्पोरेट देनदार (सीडी) की स्थापित क्षमता का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन सीडी लगभग 460 सब्सकाइबर्स के साथ देश की सबसे पुरानी बहुभाषी समाचार एजेंसियों में से एक हैं।		
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई मुख्य उत्पादीं/सेवाएं की मात्रा और मूल्य	 2021-22 के लिए बैलेंस शीट के अनुसार परिचालन से राजस्ब: क.8,65,10,996/- 		

2022-23 के लिए प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार परिचालन से राजस्व: रू.6.76 करोड (लगभग) सक्सकाइबर्स की संख्या (बिल): 460 भगतान करने वाले ग्राहकों की संख्या: 380 नोट: मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऑडिटेर बैलैंस शीट को पिछले साल उनकी एजीएम में मंजूरी नहीं दी गई थी और मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बेलेंस शीट औ सीआईआरपी प्रारंभ तिथि को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कर्मचारियों / कामगारों की संख्या नियमित कर्मचारी: 197; संविदा कर्मचारी: 75 अंतिम दो वर्षों के वित्तीय विवरणों विवरण ईमेल हारा मांगा जा सकता है: (अनसचियों के साथ) उपलब्ध cirp.unitednewsofindia@gmail.com नेनदारों की सची, प्रक्रिया की बाद की pujabahry@yahoo.com घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अन्य विवरण यहां उपलब्ध हैं: आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है। अगले

आयेदकों के लिए न्यूनतम शर्ते नीचे उद्घिखित हैं। निम्नलिखित समाधान आयेदक (अकेले, संयुक्त रूप से या संघ में) समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए रुखि व्यक्त करने के पात्र होंगे:- किसी उद्योग/स्ववसाय को चलाने/तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पनरुद्धार आदि में आवश्यक विशेषज्ञता होनी चाहिए। 2. निजी/सार्वजनिक लिपिटेड कंपनी, एलएलपी, कॉरपोरेट निकाय, पीएसयू व्यक्तिगत निवेशक चाहे भारत में शामिल हो या भारत के बाहर- न्यूनतम नेट वर्ध मानदंड 350 करोड़ रुपये या 700 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होना। 3. विश्तीय संस्थान (एफआई) / फंड / निजी इक्विटी (पीई) निवेशक / कोई अन्य समान आवेदक- 31.03.2023 तक 500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रवंधन के तहत न्यूनतम संपत्ति (एयूएम) या तैनात फंड या प्रतिबद्ध फंड उपलब्ध हैं। कंसोटियम निवेशकों को अनुमति है और नेट वर्ष्य की गणना के लिए, निवेशकों वे कंतोर्टियम हारा भारित नेट वर्ध पर पहुंचने के लिए एक भारित औसत दक्षिकोण का उपयोग किया जाएगा। अलग-अलग पात्रता मानदंड वाले उपरोक्त दो वर्गों से संबंधित आवेदकों वे बीच एक संघ की स्थिति में, पात्रता की गणना संघ में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों /नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के अनुसा 31 अगस्त 2023

महत्वपूर्ण नोट और प्रकटीकरण: कृपया ध्यान दें कि युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को वर्ष 1959 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहर अर्पार्थ उदेश्यों वाली एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कॉपॉरेट देनदार के एमओए और एओए की प्रतियां नीचे हस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती हैं। कॉर्पोरेट देनदार के शेयरों को हासिल करने या कॉर्पोरेट देनदार को गैर लाभकारी कंपनी से लाभ कमाने वाली कंपनी में बदलने की इच्छा रखने वाला एक समाधान आवेदक शेयरों वे अधिग्रहण या रूपांतरण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, जैसा भी मामला हो आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा एफडीआई नीति सहित लागू कानूनों के तहत हो।

Foods

CIN L74899DL1990PLC041790 Regd. off.: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Tel.: 011-29565344 Corp off: 4th Floor, MVL- I Park, Sector-15, Gurugram-122001 Tel: 0124-3055100,

पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग संबंधी नोटिस

Email: ir@ltgroup.in Website: www.ltgroup.in

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि एलटी फूडस लिमिटेड (**'कंपनी')** के निदेशक मंडल ने नामांकन व पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर श्री सतीश चंद्र गुप्ता (डीआईएन: 00025780) को कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है, यह सदस्यों के अनुमोदन हेत् प्रस्तुत है, जिसे पोस्टल बैलट के माध्यम से ग्रहण किया जाना वांछित है। कंपनी के सदस्यों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि दिनांक बुधवार, 2 अगस्त, 2023 के पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के संबंध में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 (कुछ समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक सुधार(रॉ) या उसके पुनर्अधिनियम(मी) सहित) ("नियम"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के विनियम ४४ (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम"), 2022 कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ("एमसीए परिपत्र"), सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जुन, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 सितंबर, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 भारत कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों (कुछ समय के लिए लागू किसी भी वैधानिक सुधार(रों) या उसके पुनर्अधिनियमन सहित) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान द्वारा कंपनी के सदस्यों की सहमति मांगने हेतु पोस्टल बैलेट नोटिस उन सदस्यों / लामार्थियों को शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है, शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 ("कट-ऑफ ढेट") के अनुसार जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) (भीतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकृत हैं और जिनका

नाम सदस्य पंजिका / लामार्थी स्वामियों की सूची में है। जिन सदस्यों के नाम शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को सदस्य पंजिका / लाभार्थी खामी सुची में हैं, उन पर ई-वोटिंग के उद्देश्य से विचार किया जाएगा और वोटिंग अधिकारों की गणना निर्दिष्ट तिथि के अनुसार शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी।

वह व्यक्ति जो विभेदक (कट-ऑफ) तिथि पर सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में मानेगा।

पोस्टल बैलेट नोटिस की मौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को ऊपर संदर्मित एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। बुधवार, 2 अगस्त, 2023 का पोस्टल बैलेंट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ltgroup.in, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं होने पर सदस्य इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्य in@ltgroup.in पर पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त करने के लिए कंपनी को अनुरोध भी भेज सकते हैं।

एमसीए सर्कुलर के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-वोटिंग) से प्रदान कर रही है। सदस्यों की सहमति और असहमति का संचार केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया

कंपनी ने एनएसडीएल की सेवाओं को अधिकृत एजेंसी के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है, ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक ("रिमोट ई-वोटिंग") माध्यम से अपना वोट दे सकें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-वोटिंग शक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को सुबह 9.00 (IST) बजे से शुरू हो गई है और शनिवार, 2 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 (IST) बजे समाप्त होगा। प्रस्ताव, यदि अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि यानी शनिवार, 2 सितंबर, 2023 को पारित किया गया है। इसके बाद आपका वोटिंग मॉडबूल अक्षम कर दिया जाएगा और शनिवार, 2 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 (IST) बजे के बाद इसकी अनुमति

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते या बैंक खाते के विवरण पंजीकत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों के संबंध में और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी को लिखकर ir@ltgroup.in पर पंजीकरण करें।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया पर निर्देश, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, के लिए ई-वोटिंग के माध्यम से बोट करने की पद्धति शामिल हैं, पोस्टल बैलट नोटिस में दिए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री देवाशीय दीक्षित, प्रोपराइटर, मेसर्स डी दीक्षित एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेंटरीज को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट के संचालन के लिए संवीक्षक (स्कृटिनाइजर) के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक (स्कृटिनाइजर) की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलेट के परिणाम, कंपनी के अध्यक्ष / कंपनी सचिव द्वारा मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.ltgroup.in पर, एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर डाले जाएंगे। किसी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध, सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए कृपया

सुश्री पल्लवी म्हान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013 से संपर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करें या टोल फ्री नंबर: 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000

स्थानः गुरुग्राम हस्ता/-दिनांक: 04.08.2023 मोनिका चावला जग्गिया

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. F5150

बोर्ड की आज्ञानसार

एलटी फूड्स लिमिटेड के लिए

Managing Director DIN: 02366798

Place: New Delhi Date: 04/08/2023 www.readwhere.com

संहिता की धारा 25(2) विवरण इंमेल करके मांगा जा सकता है: cirp.unitednewsofindia@gmail.com समाधान योजनाओं के साथ कंपनी के समाधान पेज़ेबर से संपर्क करने के लिए समाधा

10. रुचि की अधिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि संभावित संकल्प आवेदकों की अस्थायी सूची जारी करने 10 सितम्बर 2023 12. अस्थायी सूची पर आपत्तियां प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि | 15 सितम्बर 2023 13. ईओआई जमा करने के लिए ईमेल आईडी की प्रक्रिया करें cirp.unitednewsofindia@gmail.com

पूजा बाहरी दिनांक एवं स्थान: 5 अगस्त 2023; नई दिल्ली युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के समाधान पेशेक आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016-2017/10063 एएफए नंबर AA3/10063/02/121223/300816 दि. 12/12/2023 तक वैध पता: 59/27 प्रभात रोड़, न्यू रोहतक रोड, नई दिही-110005; फोन: 9811071716 ईमेल: cirp.unitednewsofindia@gmail.com, pujabahry@yahoo.com